

## MATHS

### BOOKS - RESONANCE HINDI

### MATHEMATICS ( DPP 06)

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. माना कि  $g: R \rightarrow R$ ,  $g(x) = 3 + 4x$  द्वारा दिया जाता है यदि  $g^n(x) = g \circ g \circ \dots \circ g(x)$ , तब  $g^{-n}(x)$  बराबर है, जहाँ  $g^{-n}(x)$ ,  $g^n(x)$  का प्रतिलिप्त है-

A.  $(4^n - 1) + 4^n x$

B.  $(x + 1)4^{-n} - 1$

C.  $(x + 1)4^n - 1$

D.  $(4^{-n} - 1)x + 4^n$

**Answer: C**



वीडियो उत्तर देखें

2. यदि  $f(x) = \frac{x|x|}{1+x^2}$  हो, तो  $f^{-1}(x)$  बराबर है-

A.  $\sqrt{\frac{|x|}{1-|x|}}$

B.  $(sgn(-x))\sqrt{\frac{|x|}{1-|x|}}$

C.  $-\sqrt{\frac{|x|}{1-|x|}}$

D.  $(sgn(-x))\sqrt{\frac{|x|}{1+|x|}}$

**Answer: A**



वीडियो उत्तर देखें

3. मानाकि  $f(x) = x^{105} + x^{53} + x^{27} + x^{13} + x^3 + 3x + 1$  यदि  $g(x), f(x)$  का प्रतिलोम है, तो  $g'(1)$  का मान है -

A. 3

B.  $\frac{1}{3}$

C.  $-\frac{1}{3}$

D. परिभाषित नहीं

**Answer:** B



वीडियो उत्तर देखें

4. यदि  $f\left(2x + \frac{y}{8}, 2x - \frac{y}{8}\right) = xy$  हो, तो  $f(m, n) + f(n, m)$  है -

A. m और n दोनों पर निर्भर

B. आवर्ती तथा विषम फलन

C. अचर संख्या

D. सम फलन

**Answer:**



22.2

22.3

5. माना वास्तविक मान फलन  $f$  इस प्रकार है कि किसी भी वास्तविक संख्या  $x$  के लिए

$$f(15 + x) = f(15 - x) \text{ और } f(30 + x) = -f(30 - x)$$

तो निम्न में से कौनसा कथन सत्य है?

A.  $f$  विषम है।

B.  $f$  आवर्ती है।

C.  $f$  सम है।

D.  $f$  अनावर्ती है।

**Answer: A**



वीडियो उत्तर देखें

6. फलन  $f(x)$  इस प्रकार है कि

$$2f(x) + xf\left(\frac{1}{x}\right) - 2f\left(\left|\sqrt{2} \sin\left(\pi\left(x + \frac{1}{4}\right)\right)\right|\right) = 4 \cos^2 \frac{\pi x}{2} + x \cos \frac{\pi}{x}$$

A.  $f(2) + f(1/2) = 1$

B.  $f(1) = -1$ , लेकिन  $f(1), f(1/2)$  का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं।

C.  $f(2) + f(1) = f(1/2)$

D.  $f(2) + f(1) = 0$

**Answer:**



वीडियो उत्तर देखें

7. कौनसे फलनों का युग्म तत्समक हैं -

A.  $f(x) = \sqrt{1 - x^2}, g(x) = \sqrt{1 - x}\sqrt{1 + x}$

B.  $f(x) = \sin^2 x + \cos^2 x, g(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} + \frac{2}{x^2 + 1}$

C.  $f(x) = \tan^2 x \cdot \sin^2 x, g(x) = \tan^2 x - \sin^2 x$

D.  $f(x) = \tan x + \cot x, g(x) = 2 \cos ec 2x$

**Answer: A::C::D**



8. फलन  $\frac{|\sin x| + |\cos x|}{|\sin x - \cos x| + |\sin x + \cos x|}$  का आवर्तकाल है -

A.  $\pi$

B.  $\frac{\pi}{2}$

C.  $2\pi$

D.  $\frac{2\pi}{3}$

**Answer:**



उत्तर देखें